




GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
INCOME TAX DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF
COMMISSIONER OF INCOME TAX
CCIT, RAJKOT

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| To, MEDIAID HEALTHCARE LLP MEDIAID HEALTHCARE LLP PLOT 36 SECTOR 9A,SHOP 5 IST FLOOR GANDHIDHAM KUTCH 370201,Gujarat India | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PAN: ABCFM6340G | Dated: 09/04/2026 | DIN & Order No : ITBA/COM/F/17/2026-27/1088377299(1) |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|

Sir/ Madam/ M/s,

Subject: Proceedings under section 17(2) - Order



आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 17 के खंड (2) के प्रावधान के उपखंड (viii) के परंतुक के उपखंड (ii) (ख) के अधीन के अनुमोदन के संबंध में ।

ORDER

Approval under sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to the sub clause (viii) of clause (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961.

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के उपखंड (vii) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (ख) के तहत अस्पताल के अनुमोदन के लिए एक आवेदन मेडिअड हेल्थकेर एल .एल.पी. (**PAN-ABCFM6340G**) C/o. डिवीन लाइफ हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस रोड , वार्ड 2/ए, गांधी समाधि के पास, आदिपुर, (कच्छ) 370205 गांधीधाम से प्राप्त हुआ था । तदनुसार आयकर नियम 1962, के नियम 3ए के अनुसार कमेटी द्वारा , जिसमे संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज-2(1),राजकोट, आयकर अधिकारी वार्ड (1), गांधीधाम और डॉ. हितेश धुआ, मेडिकल ऑफिसर, रामबाग हॉस्पिटल , गांधीधाम शामिल थे,दि, 19/02/2026 को गहन निरीक्षण किया गया था ।

An application for approval of Hospital under Sub-clause (ii)(b) of the Proviso to sub-clause (viii) of sub-section (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961 was received from **Mediaid Healthcare LLP, (PAN-ABCFM6340G)** C/o. Divine Life Hospital, Post office Road, Ward 2/A, Nr. Gandhi Samadhi, Adipur (kutch) 370 205 Gandhidham. Accordingly, through inspection as per rule 3A of the Income Tax Rule,

Note: If digitally signed, the date of digital signature may be taken as date of document.
ROOM NO:615, AAYAKAR BHAWAN, RACE COURSE RING ROAD, RAJKOT, Gujarat, 360001
Email: RAJKOT.CCIT@INCOMETAX.GOV.IN,

1962 was done on 19/02/2026 by the Committee consisting of the Joint CIT Range-2(1), Rajkot, the ITO, Ward-1,Gandhidham and Dr. Hitesh Dhua, Medical Officer, Rambagh Hospital, Gandhidham.

2. आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 17 (2) के उपखंड (viii) के परंतुक के खंड (vii) के उप-खंड (ख) के तहत तथा आयकर नियम 1962 के नियम A3 में निहित शक्तियर्ष का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेडिएड हेल्थकेर एल .एल.पी.(**PAN-ABCFM6340G**) c/o. डिवीन लाइफ हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस रोड, वार्ड 2/ए, गांधी समाधि के पास, आदिपुर, (कच्छ) 370205 गांधीधाम -360005 को आयकर नियम, 1962 के 3 ए (2) में उल्लिखित मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा उपचार के संबंध में अनुमोदित किया जाता है ।

2. In exercise of the powers vested in the undersigned under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of Section 17(2) of the Income Tax Act, 1961, read with Rule 3A of the Income Tax Rules, 1962, approval is hereby granted to **Mediaid Healthcare LLP, (PAN-ABCFM6340G)**C/o. Divine Life Hopital, Post office Road, Ward 2/A, Nr. Gandhi Samadhi, Adipur (kutch) 370 205 Gandhidham. as a multispecialty hospital as specified in Income Tax Rule 3A(2).

3. तदनुसार, किसी नियोक्ता द्वारा वास्तव में किसी कर्मचारी द्वारा अपने या उसके परिवार के किसी सदस्य पर मेडिएड हेल्थकेर एल .एल.पी. (**PAN-ABCFM6340G**) c/o. डिवीन लाइफ हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस रोड , वार्ड 2/ए, गांधी समाधि के पास, आदिपुर, (कच्छ) 370205 गांधीधाम में नीचे दर्शाए तालिका के आयकर नियम 1962 के नियम 3 ए (2) में विहित रोग या बीमारियों के सम्बन्ध में किसी भी व्यय के भुगतान की गई कोई भी राशि को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15, 16 और 17 के तहत अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह की राशि कर्मचारी के हाथों में कर मुक्त रहेंगी.

3. Accordingly, any sum paid by an employer in respect of any expenditure actually incurred by an employee on his/her or any member of his/her family at **Mediaid Healthcare LLP, (PAN-ABCFM6340G)** C/o. Divine Life Hopital, Post office Road, Ward 2/A, Nr. Gandhi Samadhi, Adipur (kutch) 370 205 Gandhidham for the multiple ailment or disease as mentioned in the table below shall not be treated as a perquisite for the purpose of section 15, 16 and 17 of the Income-tax, 1961 and such sum shall be exempt from Income-tax in the hands of the employee.

Rule 3A(2):- For the purpose of sub-clause (b) of clause (ii) of the Proviso to sub-clause (viii) of clause (2) of section 17, the prescribed disease or ailments shall be the following namely:-

| Sr.No. | Sub No | Rule | Disease Or Ailment | Approved Yes or No |
|--------|--------|------|--------------------|-----------------------|
| | | | | |

| | | | |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. | 3A(2)(a) | Cancer | No |
| 2. | 3A(2)(b) | Tuberculosis | Yes |
| 3. | 3A(2)(c) | Acquired immunity deficiency syndrome | No |
| 4. | 3A(2)(d) | Disease or ailment of the heart blood, lymph glands, bone marrow, respiratory system, central nervous system urinary system, liver, gall bladder, digestive system, endocrine glands or the skin, requiring surgical operation. | Yes |
| 5. | 3A(2)(e) | Ailment or disease of the eye, ear, nose or throat, requiring surgical operation. | No |
| 6. | 3A(2)(f) | Fracture in any part of the skeletal system or dislocation of vertebrate requiring surgical operation or orthopedics treatment | Yes |
| 7. | 3A(2)(g) | Gynecological or obstetric ailment or disease requiring surgical operation, caesarean operation or laparoscopic intervention | No |
| 8. | 3A(2)(h) | Ailment or disease of the organs ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days | Yes |
| 9. | 3A(2)(i) | Gynecological or obstetric ailment or disease requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days | No |
| 10. | 3A(2)(j) | Burn injuries requiring medical treatment in a hospital for a least three continuous days | No |
| 11. | 3A(2)(k) | Mental disorder-neurotic or psychology – requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days, | Yes |
| 12. | 3A(2)(l) | Drug addiction requiring medical treatment in a hospital at least seven continuous days | No |

| | | | |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13. | 3A(2)(m) | Anaphylactic shocks including insulin shocks, drug reaction and other allergic manifestations requiring medical treatment in a hospital for at least three continuous days. | Yes |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

4. नियोक्ता ऐसी राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 के तहत कर कटौती करने के लिए बाध्य नहीं होगा ।
4. The employer will not be liable to deduct tax u/s 192 of the Income Tax Act, 1961 in respect of such sum.
5. प्रदान की गई स्वीकृति केवल आयेर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के उपखंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के उप-खंड (ख) के प्रयोजन के लिए उपरोक्त पते पर स्थित अस्पताल तक ही सीमित है और इसे केंद्र सरकार या मुख्य आयकर आयुक्त , राजकोट या किसी वैधानिक अधिकारी की ओर से किसी भी अन्य प्रकार के उद्देश्य के अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए ।
5. The approval accorded is limited only for the purpose of sub clause (b) of clause (ii) of the proviso to clause (viii) of sub-section (2) of section 17 of the Income Tax Act, 1961, to the hospital at the above address and should not be construed as approval of the Central Government or the Chief Commissioner of Income Tax, Rajkot, or any other statutory authority under the Government for any other purpose.
6. यह अनुमति सशर्त है कि यह अनुमोदन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि अनुमोदन तथ्यों की गलत प्रस्तुति और / या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है, या आयकर नियमावली, 1962 के नियम 3ए के उप-नियम (1) में निर्धारित आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हो । साथ ही, अनुमोदन को शासित करने वाले तथ्यों और प्रावधानों में भविष्य में संशोधन के कारण आवश्यकता होने पर भी अनुमति वापस ली जा सकती है ।
6. The approval is subject to withdrawal at any time, if it is found that the approval has been obtained through misrepresentation of facts and / or by fraud, or necessary conditions as stipulated in sub-rule (1) of Rule 3A of the Income-tax Rules, 1962 are not fulfilled and is subject to modification / withdrawal, if necessitated by subsequent change in the facts and provision governing the approval.
7. यह आदेश दि, **30.03.2026** से दि,**29.03.2029** तक प्रभावशील है । अनुमोदन का आदेश अस्पताल द्वारा आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए के तहत निर्धारित वैधार्तित शर्तों के निरंतर अनुपालन के अधीन है और यह अनुमोदन आयकर अधिनियम, 1961, के तहत अनुमोदन को नियंत्रित करने वाले प्रावधानोंमें अन्य संशोधनों के भी अधीन है । यह अनुमोदन समय-समय पर स्थानीय प्राधिकर विभागों से प्राप्त नवीनीकरण की प्रतियां प्रस्तुत करने के अधीन भी है ।
7. This order is effective from **30.03.2026 to 29.03.2029**. The order approval is subject to the hospital's continued compliance with the statutory conditions prescribe under Rule 3A of the Income tax Rules, 1962 necessary for such approval with such modification as may be necessitated by any amendments to the provision governing the approval under the Income Tax Act, 1961. This approval is also subject to the

applicant further furnishing copies of renewals obtained from the local authorities / departments on expiry of their validity periods.

8. अस्पताल अपने चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने वाले ऐसे कर्मचारियों को एक प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें बीमारी या जिसके लिए चिकित्सा उपचार दिया गया था और उपचार के लिए अस्पताल को भुगतान के माध्यम से किए गए व्यय की राशि और इस तरह के उपचार के लिए अस्पताल द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं को प्रासंगिक बिलों के साथ निर्दिष्ट किया जाएगा। प्रमाणपत्र में इस आदेश के अनुसार वैधता की तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

8. The hospital shall issue a certificate to such employees availing its medical facilities specifying the disease or ailment for which medical treatment was given and the amount of expenditure incurred by way of payment to the hospital for treatment and medicines supplied by the hospital for such treatment along with relevant bills. The certificate should mention the date of validity as per this order.

9. अनुमोदन का यह आदेश निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है :-

9. This order of approval is further subject to compliance of the following terms and conditions:-

- i) यह अनुमोदन हस्तांतरणीय नहीं है।
- i) This approval is not transferable
- ii) अस्पताल हर उचित समय पर आयकर विभाग के ऐसे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए

खुला रहेगा जा इस संबंध में विधिवत अधिकृत है।

ii) The hospital shall at all reasonable time be open for inspection by such officers of the Income Tax Department as are duly authorized in this behalf.

iii) अस्पताल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (viii) के परंतुक के खंड (ii) के दप-खंड (ख) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा, जो आयकर नियम, 1962 के नियम 3 ए (1) और 3 ए (2) के साथ पढ़ा जाता है। यदि अस्पताल आयकर अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित शर्तों में से किसी की भी अनुपालना करने में असमर्थ हो जाता है तो अस्पताल को अनिवार्य तौर पर ऐसे तथ्य / तथ्यों की स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी को सूचित करना होगा।

iii) The Hospital shall conform to such conditions as are prescribed under sub-clause (b) of clause (ii) of the proviso to sub-clause (viii) of section 17(2) of the Income Tax Act, 1961, read with Rule 3A(1) and 3A(2) of the Income-tax Rules, 1962. In the event that the Hospital ceases to satisfy any of the conditions prescribed under the Income-Tax Act, it will be mandatory on the part of the Hospital to notify such fact immediately, to the approving authority.

- iv) अनुमोदन के पुनःनवीकरण के लिए आवेदन इस वर्तमान अनुमोदल की समय सीमा की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- iv) The application for renewal of approval should be submitted at least 60 days before the expiry of current approval.

(Satish K. Goyal)

Chief Commissioner of Income Tax,

Rajkot

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| No.CCIT/RJT/HQ-2/17(2)/MHLLP/2025-26 | Date:- 09/04/2026 |
|--------------------------------------|-------------------|

Copy forwarded to:-

- (1) The Secretary CBDT, New Delhi
- (2) The Pr. Chief CIT, Ahmedabad.
- (3) The Chief CIT-I /II Ahmedabad
- (4) The Chief CIT-Baroda & Surat
- (5) The DGIT(Inv.), Ahmedabad
- (6) The Pr.CIT-1, Rajkot
- (7) The Pr. CIT-Jamnagar
- (8) The Addl.CIT, Range-2(1), Rajkot
- (9) The ITO, ward-1, Gandhidham
- (10) Mediaid Healthcare LLP, (PAN-ABCFM6340G) C/o. Divine Life Hospital, Post office Road, Ward 2/A, Nr. Gandhi Samadhi, Adipur (kutch) 370 205 Gandhidham.

--

SATISH KUMAR GOYAL
CCIT, RAJKOT

